

इतिहास विभाग ,रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय , ऑनलाइन परीक्षा कार्यक्रम , सेमेस्टर IV , २०२०

१. covid 19 के कारण , परीक्षा ऑनलाइन ,open book व्यवस्था से होगी।

२. परीक्षार्थी A 4 आकार के पृष्ठों में उत्तर लिखेंगे जो वे स्वयं के स्रोतों से प्राप्त करेंगे।

३.परीक्षार्थियों को ५ अनिवार्य प्रश्न हल करने होंगे , प्रत्येक इकाई का एक प्रश्न होगा।

४.प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा ,२५० शब्द रहेगी।

५. उत्तर स्वयं की भाषा में लिखें , पुस्तकों की हूबहू नकल प्रस्तुत करने पर अंक काटे जायेंगे।

६. यदि कोई परीक्षार्थी किसी अन्य से उत्तर लिखवा कर जमा करता है , अथवा अन्य किसी परीक्षार्थी के उत्तर की नकल प्रस्तुत करता है तो राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी।

७.सभी चार प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिनांक ३०. ०९. २०२० को उपलब्ध कर दिए जायेंगे।

८ . विद्यार्थी अपना प्रवेश पत्र दिनांक २६. ०९. २०२० से , mponline से डाउनलोड कर सकेंगे। प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के साथ प्रवेश पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है। उत्तर पुस्तिका के मुखपृष्ठ पर , छात्र निम्नलिखित जानकारी सुलेख में दें

(अ) विषय

(ब)प्रश्न पत्र का शीर्षक

(स)प्रश्न पत्र का कोड

(द) रोल नंबर -अंकों में

(इ)रोल नंबर शब्दों में

(फ)नामांकन क्रमांक

ध्यान रहे अपना नाम नहीं लिखना है

९ .विद्यार्थी ,अपना प्रवेश पत्र ,उत्तर पुस्तिका का मुख पृष्ठ ,तथा शेष पृष्ठ ,स्वयं के कंप्यूटर अथवा mponline केंद्र से scan कर PDF फाइल बना कर दिनांक ०५. १०. २०२० तक अनिवार्यतः ,अथवा पहले, निम्नलिखित ईमेल पते पर प्रेषित कर दें - drsubhash.rdv@gmail.com

फाइल scanned और PDF ही होवे ,प्रत्येक पृष्ठ पर, पृष्ठ क्रमांक अंकित करें और उसी क्रम से PDF फाइल तैयार करें , मोबाइल फोन से खींची फोटोग्राफ से तैयार फाइल की अनुमति नहीं है। ईमेल भेजने में सावधानी रखें ,असावधानी से ईमेल भेजने के कारण कभी कभी मेल तो आ जाती है किन्तु उसमें आवश्यक फाइल नहीं रहती है।उत्तर पुस्तिका एक गोपनीय दस्तावेज है ,उसे दिए गए ईमेल पते पर ही भेजिए, whatsapp पर उत्तर पुस्तिकाएं भेजना प्रतिबंधित है

राज्य शासन के स्पष्ट आदेश हैं अंतिम तिथि के बाद अपलोड की जाने वाली उत्तर पुस्तिकाएं स्वीकार नहीं की जाएँगी

१०. covid19 से सुरक्षा के कारण, उत्तर पुस्तिकाएं hard copy में हम विभाग में जमा नहीं करवा रहे हैं। सम्पूर्ण परीक्षा प्रणाली online ही है।

११. उत्तर पुस्तिका की एक hard copy अपने पास सुरक्षित रखें , भविष्य में उसका सन्दर्भ लिया जा सकता है।